



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062024-254849
CG-DL-E-21062024-254849

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2301]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2024/ज्येष्ठ 31, 1946

No. 2301]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2024/JYAISHTHA 31, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2024

का.आ. 2421(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो महाराष्ट्र राज्य से राज्य सभा के उस स्थान को, जो श्री प्रफुल्ल पटेल की उनकी पदावधि, जो तारीख 04 जुलाई, 2028 को सम्मिलित करते हुए 04 जुलाई, 2028 तक थी, के अवसान से पूर्व तारीख 27 फरवरी, 2024 को त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था, भरने के लिए, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

घोषणा

महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री प्रफुल्ल पटेल की रिक्ति को भरने के लिए राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूँ कि—

पवार, सुनेत्रा अजीत

डाक-काटेवाड़ी,

ताल्लुक-बारामती,

जिला-पुणे

जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं, उस सदन में पटेल, प्रफुल्ल मनोहरभाई द्वारा त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान: विधान भवन,

ह0/-

बैकवे रेक्लामेशन,

सचिव (1) (आई/सी),

मुंबई-400 032।

महाराष्ट्र विधान सचिवालय और

तारीख : 18 जून, 2024।

राज्य सभा के उप-निर्वाचन 2024 के लिए

रिटर्निंग आफिसर।”

[फा. सं. एच-11024/3/2024-वि.2]

सुधा रानी रेलंगी, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2024.

S.O.2421(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States from the State of Maharashtra that fell vacant on 27th February, 2024 by the resignation of Shri Praful Patel, before the expiration of his term of office which was up to and including 04th July, 2028, is published for general information:-

Declaration

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra to fill the vacancy of Shri Praful Patel.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Pawar, Sunetra Ajit

At Post - Katewadi,

Tal. - Baramati,

Dist. - Pune

Sponsored by – **Nationalist Congress Party** has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Patel, Praful Manoharbhair.

Place: Vidhan Bhavan,

Sd/-

Backbay Reclamation,

Secretary (1) (I/C),

Mumbai – 400 032.

Maharashtra Legislature Secretariat

Date: 18th June, 2024.

and

Returning Officer for the Bye-Election

to the Council of States, 2024. ”

[F. No. H. 11024/3/2024-Leg.II]

SUDHA RANI RELANGI, Jt. Secy. & Legislative Counsel